

CHILD DEVELOPMENT AND TEACHING METHOD

1. कोहलर निम्न में किससे सम्बन्धित है ?

- (1) अभिप्रेरणा के सिद्धान्त
- (2) अधिगम के सिद्धान्त
- (3) व्यक्तित्व के सिद्धान्त
- (4) विकास के सिद्धान्त

2. पैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है

- (1) 15
- (2) 10
- (3) 12
- (4) 14

3. सामाजिक अंतर्गत प्रयोग का प्रयोग निम्न में से किसके सिद्धान्त को किताबत है ?

- (1) अज्ज
- (2) समस्य समाधान
- (3) व्यवहारवाद
- (4) प्रयोगवाद

4. निम्न में से किसके प्रयोग में 'डॉग' का प्रयोग है ?

- (1) स्किनर
- (2) कोहलर
- (3) थोरनडाइक
- (4) पाव्लोव

5. 'कॉम्बट' शब्द का अर्थ निम्न में से किसके सिद्धान्त में है ?

- (1) अज्ज
- (2) समस्य समाधान
- (3) व्यवहारवाद
- (4) प्रयोगवाद

6. कॉम्बट का अर्थ है

- (1) अज्ज
- (2) समस्य समाधान
- (3) व्यवहारवाद
- (4) प्रयोगवाद

1. Kohler is associated with which of the following ?

- (1) Theory of Motivation
- (2) Theory of Learning-
- (3) Theory of Personality
- (4) Theory of Development

2. According to McDougall the number of instincts are

- (1) 15
- (2) 10
- (3) 12
- (4) 14

3. Brainstorming Model of Teaching is used to improve which of the following ?

- (1) Understanding
- (2) Problem solving
- (3) Creativity
- (4) Application

4. 'Dog' was the experimentee in whose experiment ?

- (1) Skinner
- (2) Kohler
- (3) Thorndike
- (4) Pavlov

5. Originality, flexibility and flow are the components of which of the following ?

- (1) Intelligence
- (2) Motivation
- (3) Personality
- (4) Creativity

6. Combat is

- (1) Instinct
- (2) Thinking
- (3) Imagination
- (4) Emotion



7. बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं
- (1) आर्थिक तत्व
 - (2) वंशानुगत तत्व
 - (3) शारीरिक तत्व
 - (4) सामाजिक परिवेशजन्य तत्व
8. शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन-सा है ?
- (1) मानसिक विकास से भिन्नता का नियम
 - (2) कल्पना और संवेगात्मक विकास से सम्बन्ध का नियम
 - (3) द्रुतगामी विकास का नियम
 - (4) अनियमित विकास का नियम
9. निम्नलिखित में से कौन-सा विकास का सिद्धान्त नहीं है ?
- (1) अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धान्त
 - (2) समान प्रतिमान का सिद्धान्त
 - (3) परस्परसम्बन्ध का सिद्धान्त
 - (4) निरन्तर विकास का सिद्धान्त
10. "विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएँ और नवीन योग्यताएँ प्रकट होती हैं" यह कथन _____ ने दिया है।
- (1) गेसेल
 - (2) डगलस और होलेण्ड
 - (3) मेरेडिथ
 - (4) हरलाक
11. पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है
- (1) कल्पना
 - (2) चिन्तन
 - (3) स्मृति
 - (4) प्रत्यक्षीकरण
12. सोखने में प्रयास व भूल के सिद्धान्त का प्रतिपादन किसने किया ?
- (1) कोह्लर
 - (2) गेस्टाल्ट
 - (3) थॉर्नडाइक
 - (4) पाव्लोव
7. Factors affecting the social development of children are
- (1) Economic elements
 - (2) Hereditary elements
 - (3) Physical elements
 - (4) Social environmental elements
8. Which of the following is a primary law of Physical Development ?
- (1) Law of difference from mental development
 - (2) Law of relation from imagination and emotional development
 - (3) Law of rapid growth
 - (4) Law of irregular development
9. Which of the following is **not** the theory of development ?
- (1) Theory of Conditioned Reflex
 - (2) Theory of Uniform Pattern
 - (3) Theory of Interrelation
 - (4) Theory of Continuous Growth
10. "Development results in new characteristics and new abilities" this statement is given by
- (1) Gessell
 - (2) Douglas and Holland
 - (3) Meredith
 - (4) Hurlock
11. Giving meaning to sensation on the basis of past experience is called
- (1) Imagination
 - (2) Thinking
 - (3) Memory
 - (4) Perception
12. Who has propounded the law of trial and error of learning ?
- (1) Kohler
 - (2) Gestalt
 - (3) Thorndike
 - (4) Pavlov



13. औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा
- (1) 70 - 79
 - (2) 110 - 114
 - (3) 90 - 109
 - (4) 80 - 89
14. निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे ?
- (1) कैटेल
 - (2) स्किनर
 - (3) वर्नन
 - (4) थॉर्नडाइक
15. क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धान्त का प्रतिपादन किया
- (1) हल
 - (2) स्किनर
 - (3) हेगार्टी
 - (4) थॉर्नडाइक
16. ब्लू प्रिंट निम्न में किसका महत्वपूर्ण घटक है ?
- (1) परीक्षण निर्माण
 - (2) परीक्षण अंकन
 - (3) परीक्षण प्रशासन
 - (4) परीक्षण वैधता
17. विकास की पूर्वसक्रिया अवस्था निम्न में किसने दिया था ?
- (1) हुनर
 - (2) स्किनर
 - (3) कोह्लर
 - (4) पियाजे
18. एम. पी. आई. परीक्षण का उपयोग निम्न में किसके मापन में किया जाता है ?
- (1) व्यक्तित्व
 - (2) सृजनात्मकता
 - (3) सम्प्राप्ति
 - (4) बुद्धि

13. I.Q. Level of average intelligence children will be between
- (1) 70 - 79
 - (2) 110 - 114
 - (3) 90 - 109
 - (4) 80 - 89
14. Who among the following has proposed Fluid Mosaic Model of Intelligence ?
- (1) Cattell
 - (2) Skinner
 - (3) Vernon
 - (4) Thorndike
15. Operant Conditioning Theory is propounded by
- (1) Hull
 - (2) Skinner
 - (3) Hegarty
 - (4) Thorndike
16. Blue print is an important component of which of the following ?
- (1) Test construction
 - (2) Test scoring
 - (3) Test administration
 - (4) Test validation
17. Pre-operational stage is the stage of development proposed by
- (1) Bruner
 - (2) Skinner
 - (3) Kohler
 - (4) Piaget
18. M.P.P.I. is a test used to measure which of the following ?
- (1) Personality
 - (2) Creativity
 - (3) Achievement
 - (4) Intelligence



19. अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है ?

- (1) अभिप्रेरणा
- (2) निर्देशन
- (3) परिपक्वता
- (4) रुचि

20. शैशवकाल का समय है

- (1) 12 वर्ष से 18 वर्ष तक
- (2) 15 वर्ष तक
- (3) जन्म से 6 वर्ष तक
- (4) जन्म से 2 वर्ष तक

21. कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम

- (1) समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है
- (2) मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है
- (3) जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है
- (4) एक स्वतन्त्र क्रिया है

22. किसने पाठ योजना की 'पंचपद प्रणाली' प्रतिपादित किया ?

- (1) जॉन डीवी
- (2) ब्लूम
- (3) किलपैट्रिक
- (4) हर्बर्ट

23. निम्नलिखित में ग्रन्थियों के आधार व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है ?

- (1) क्रेरामर
- (2) स्प्रेन्जर
- (3) कैनन
- (4) जुंग

24. 'सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है।' यह कथन है

- (1) कोल एवं ब्रूस का
- (2) क्रो एवं क्रो का
- (3) डीहान का
- (4) ड्रेवहाल का

19. Which of the following is most essential for learning ?

- (1) Motivation
- (2) Guidance
- (3) Maturation
- (4) Interest

20. The period of infancyhood is

- (1) From 12 years to 18 years
- (2) Upto 15 years
- (3) From birth to 6 years
- (4) From birth to 2 years.

21. Through his experiment Kohler wanted to prove that learning is

- (1) The perception of whole situation
- (2) Human learning is purposeful
- (3) Better in animals than human beings.
- (4) An independent activity

22. Who propounded 'Five Step System' of lesson planning ?

- (1) John Dewey
- (2) Bloom
- (3) Kilpatrick
- (4) Herbart

23. Who described different types of personality based on Glands from the following ?

- (1) Kreshmer
- (2) Sprangar
- (3) Cannon
- (4) Jung

24. 'Creativity is a mental process to express the original outcomes' - the statement is of

- (1) Cole and Bruce.
- (2) Crow and Crow
- (3) Dehan
- (4) Drevahal



25. बी. एफ. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है

- (1) जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप
- (2) व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप
- (3) अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप
- (4) परिपक्वता के फलस्वरूप

26. मूल प्रवृत्तियों को चोदक प्रकार से _____ ने वर्गीकृत किया है।

- (1) ड्रेवर
- (2) वुडवर्थ
- (3) थॉर्नडाइक
- (4) मैकडूगल

27. 'किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केन्द्रीकरण अवधान है' यह कथन है

- (1) डम्बिल का
- (2) मैकडूगल का
- (3) मन का
- (4) रॉस का

28. निम्नलिखित में किसका नाम 'सुजननशास्त्र के पिता' से जुड़ा हुआ है ?

- (1) क्रो एवं क्रो
- (2) वुडवर्थ
- (3) रॉस
- (4) गाल्टन

29. 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिन्दी में डा. एस. जलोटा ने कौन-सा परीक्षण प्रतिपादित किया है ?

- (1) अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण
- (2) चित्रांकन परीक्षण
- (3) आर्मी अल्फा टेस्ट
- (4) साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण

30. बुद्धि के 'द्विकारक सिद्धान्त' का प्रतिपादन किसने किया ?

- (1) थॉर्नडाइक
- (2) स्टर्न
- (3) बर्न
- (4) स्पीयरमैन

25. According to B.F. Skinner language development in children takes place

- (1) As an outcome of inborn capability
- (2) As an outcome of training in grammar
- (3) As an outcome of imitation and reinforcement
- (4) As an outcome of maturity

26. Instincts are classified in fourteen types by

- (1) Drever
- (2) Woodworth
- (3) Thorndike
- (4) McDougall

27. 'Attention is the concentration of consciousness upon one object rather than upon another' this statement is related to

- (1) Dumvile
- (2) McDougall
- (3) Munn
- (4) Ross

28. Whose name is associated with 'Father of the Eugenics' from the following ?

- (1) Crow and Crow
- (2) Woodworth
- (3) Ross
- (4) Galton

29. Which test is propounded by Dr. S. Jalota in Hindi for the children of 12 to 16 years ?

- (1) Non-verbal Intelligence Test
- (2) Picture Drawing Test
- (3) Army Alfa Test
- (4) General Mental Ability Test

30. Who propounded the 'Two Factor Theory' of intelligence ?

- (1) Thorndike
- (2) Stern
- (3) Vernon
- (4) Spearman

भाग - II/PART - II

भाषा - I : हिन्दी / Language - I : HINDI

प्रश्न सं. 31 - 35 : दिये गये गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के विकल्प छांटिए :

आदिम आर्य घुमक्कड़ ही थे। यहाँ से वहाँ वे घूमते ही रहते थे। घूमते भटकते ही वे भागते पहुँचे थे। यदि घुमक्कड़ी का चाना उन्होंने न धारण किया होता, यदि वे एक स्थान पर ही रहते, तो आज भारत में उनके वंशज न होते। भगवान बुद्ध घुमक्कड़ थे। भगवान महावीर घुमक्कड़ थे। वर्षाकाल के कुछ महीनों को छोड़कर एक स्थान में रहना बुद्ध के वंश का नहीं था। 35 वर्ष की आयु में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। 35 वर्ष से 80 वर्ष की आयु तक जब उनकी मृत्यु हुई, 45 वर्ष तक वे निरन्तर घूमते ही रहे। अपने आप को समाज सेवा और धर्म प्रचार में लगाये रहे। अपने शिष्यों से उन्होंने कहा था "चारथ भिक्षुवे" चारिक्" हे भिक्षुओं! घुमक्कड़ी करो यद्यपि बुद्ध कभी भारत के बाहर नहीं गये किन्तु उनके शिष्यों ने उनके वचनों को सिर आँखों पर लिया और पूर्व में जापान उत्तर में मंगोलिया पश्चिम में मकदूनिया और दक्षिण में बाली द्वीप तक घाया नारा। श्रवण महावीर ने स्वच्छन्द विचारण के लिए अपने वस्त्रों तक को त्याग दिया। दिशाओं को उन्होंने अपना अम्बर बना लिया, वैशाली में जन्म लिया, पावा में शरीर त्याग किया। जीवनपर्यन्त घूमते रहे। मानव के कल्याण के लिए मानवों के राह प्रदर्शन के लिये और शंकराचार्य, बारह वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बङ्किाश्रम में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेकर हिमालय तक समस्त भारत को अपना कर्मक्षेत्र समझा सांस्कृतिक एकता के लिए, समन्वय के लिए, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका।

31. घुमक्कड़ शब्द में कौन-सा प्रत्यय है ?

- (1) अक्कड़- (2) कड़
(3) अड़ (4) ड

32. महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था ?

- (1) पावापुरी (2) पासीली
(3) कुशीनगर (4) वैशाली-

33. स्वच्छन्द में कौन-सी सन्धि है ?

- (1) विसर्ग (2) व्यंजन
(3) गुण (4) दीर्घ-

34. महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी ?

- (1) 12 वर्ष (2) 80 वर्ष
(3) 45 वर्ष (4) 35 वर्ष

35. "श्रुति धर्म" का क्या अर्थ है ?

- (1) जैन धर्म (2) वैदिक धर्म
(3) मुस्लिम धर्म (4) बौद्ध धर्म

36. इ का उच्चारण स्थान होता है

- (1) नासिक्य (2) कंठ तलव्य
(3) मूर्धन्य (4) कंठोष्ठ्य

37. 'चार गज मलमल' में कौन-सा विशेषण है ?

- (1) संख्यावाचक (2) सार्वनामिक
(3) परिमाणबोधक (4) गुणवाचक

38. 'समास' का विलोम क्या है ?

- (1) व्यास (2) साहसिक
(3) समस्या (4) सामासिक

39. 'सुन' का तत्सम रूप क्या है ?

- (1) सून (2) शून्य
(3) सूना (4) सन्न

40. 'आँख की किरकिरी होने' का अर्थ है

- (1) अप्रिय लगना
(2) बहुत प्रिय होना
(3) कष्टदायक होना
(4) धोखा देना

41. निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है ?

- (1) अनुग्रहीत (2) अनुग्रहित
(3) अनग्रहीत (4) अनुगृहीत

42. निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है

- (1) पैट्रिक (2) पैत्रक
(3) पैतीरक (4) पैतुक-



43. 'श' ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है ?
(1) दन्त (2) दन्तालु
(3) तालु (4) मूर्धा
44. 'अत्यंत' शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है
(1) अत् (2) अति-
(3) अत्व (4) अ
45. 'उपत्यका' का अर्थ है
(1) सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है
(2) पर्वत के पास की भूमि
(3) पर्वत का शिखर
(4) प्राणियों के पेट का एक अंग
46. निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है
(1) शुद्ध वर्तनी (2) आशु भाषण
(3) श्रुतलेख (4) सुलेख
47. हिन्दी भाषा की बोलियाँ हैं
(1) 15 (2) 22
(3) 18 (4) 25
48. 'सामाजिक' शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय है
(1) सामाज + इक (2) समाज + इक
(3) सा + माजिक (4) सामा + जिक
49. 'तद्भव' पत्रिका के सम्पादक का नाम है
(1) लीलाधर जगूड़ी
(2) अखिलेश
(3) हरे प्रकाश उपाध्याय
(4) विश्वनाथ प्रसाद तिवारी
50. 'बारह बरस ली कूजर जीवै, अरु तेरह ली जियै सियार' - यह पंक्ति किसकी है ?
(1) विद्यापति (2) जगनिक
(3) नरपति मालह (4) चन्द्रकादई
51. 'अकाल' का पर्यायवाची है
(1) दुर्भिक्ष (2) अपरिहार्य -
(3) अचिन्ता (4) अक्षत
52. निम्नलिखित वाक्यों में जौन-सा मिश्र वाक्य है ?
(1) अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं।
(2) क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं।
(3) अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं।
(4) छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं।
53. 'जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो' के लिए एक शब्द।
(1) प्रत्याशा (2) अनाहूत
(3) अपरिमेय (4) अप्रत्याशित
54. 'मुझसे उठा नहीं गया' वाक्य में वाच्य है
(1) कर्तृवाच्य (2) इनमें से कोई नहीं
(3) भाववाच्य (4) कर्मवाच्य
55. 'निष्कपट' शब्द का सन्धि-विच्छेद है
(1) निः + कपट (2) निश् + कपट
(3) नि + कपट (4) निष् + कपट
56. इस देश में हिन्दी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है
(1) आस्ट्रेलिया (2) मारीशस
(3) पाकिस्तान (4) दक्षिण अमेरिका
57. 'सूर सागर' किस भाषा की रचना है ?
(1) अवधी (2) छत्तीसगढ़ी
(3) ब्रज (4) बुन्देली
58. 'वीरों का कैसा हो वसंत' कविता किसकी लिखी है ?
(1) सुमित्रा कुमारी चौहान
(2) रामधारी सिंह दिनकर
(3) माखनलाल चतुर्वेदी
(4) सुभद्रा कुमारी चौहान
59. 'क्षेत्रीय' में कौन-सा विशेषण है ?
(1) गुणवाचक (2) सार्वनामिक
(3) परिमाण बोधक (4) संख्यावाचक
60. 'चौराहा' शब्द में समास है
(1) कर्मधातु समास (2) अव्ययीभाव समास
(3) द्विगु समास (4) इन्द्र समास

भाग - III/PART - III

भाषा - II : अंग्रेजी / Language - II : ENGLISH

61. What kind of adjectives are used in the following sentence?
A live ass is better than a dead lion.
(1) Descriptive
(2) Quality
(3) Indefinite
(4) Quantity
62. Which of the following has been misspelt?
(1) deciduous (2) entrance
(3) governence (4) ambiguous
63. Pick out the correct synonym of the word :
attenuate
(1) repent (2) make thin
(3) divide (4) force
64. Pick the sentence with the correct conjunction :
(1) No sooner had we reached the station but the train left.
(2) No sooner had we reached the station and the train left.
(3) No sooner had we reached the station when the train left.
(4) No sooner had we reached the station than the train left.
65. Pick out the suitable antonym of the given word :
judicious
(1) imprudent
(2) careful
(3) silly
(4) sagacious
66. The meaning of the idiom "to put out" is
(1) To postpone (2) To go out
(3) To extinguish (4) To wait
67. The sentence : " This is the house in which I was born", is
(1) A simple sentence
(2) A compound - complex sentence
(3) A complex sentence
(4) A compound sentence
68. Fill in the blank :
'The objection was met out _____ the lawyer'.
(1) with (2) from
(3) by (4) to
69. Fill in the blank :
" _____ of playing, the children went home".
(1) Being tired (2) While tiring
(3) Having tired (4) On tiring
70. Join the following sentence to make a simple sentence :
The coffee isn't too strong. It won't keep awake.
(1) The coffee isn't too strong to keep us awake.
(2) The coffee isn't too strong so as to keep us awake.
(3) The coffee isn't too strong so it won't keep us awake.
(4) The coffee isn't too strong and will not keep us awake.
71. Complete the following sentence with correct Conjunction :
_____ he had not paid his bill, his electricity was cut off.
(1) But
(2) As
(3) Unless
(4) Either

72. Choose the correct figure of speech in the following sentence :

Death lays his icy hand on Kings.

- (1) Metaphor (2) Simile
(3) Apostrophe (4) Personification

73. Choose the proper sequence to complete the following :

The guide said that
P. nowhere in the world
Q. a fairer building
R. you will find
S. than the Taj Mahal.

The proper sequence should be :

- (1) R Q P S (2) R Q S P
(3) P S Q R (4) P R Q S

74. Give the meaning of the following proverb :

A bird in hand is worth two in a bush.

- (1) To catch two birds with your hands.
(2) To trap birds in bushes.
(3) It is better to be satisfied with what you have than to try to get what is not yours.
(4) To be dissatisfied with what you have.

75. Choose the correct option to complete the sentence :

I _____ him since we met a year ago.

- (1) didn't see (2) not saw
(3) hadn't seen (4) haven't seen

76. Who are the earliest known inhabitants of Antarctica ?

- (1) American Scientists
(2) It is has always been a desert
(3) Dinosaurs
(4) Indian Scientists

77. Which of the following words is Adverb ?

- (1) Apace (2) Fury
(3) Meek (4) Face

78. Fill in the blank with suitable Pronoun
My son and my daughter are very fond of _____.

- (1) herself
(2) himself
(3) themselves
(4) each other

79. Which of the following is an example of Metaphor ?

- (1) He is a big donkey.
(2) My heart leaps up when I behold a rainbow in the sky.
(3) The bitter-sweet memories of childhood are a source of great pleasure.
(4) The face of the child is as soft as the petals of a rose.

80. Choose the correct option :

Study of population is known as

- (1) Ecology (2) Genealogy
(3) Demography (4) Astronomy

81. Transform the following into a Direct sentence :

'I asked Sheela if I might know her father'.

- (1) I said to Sheela, "May I know your father ?"
(2) I questioned Sheela, "Will I know your father ?"
(3) I asked Sheela, "Can I know your father ?"
(4) I told Sheela, "May I know your father ?"



82. The idiom 'To ring one's own bell' means
- (1) to think properly
 - (2) to indulge in self praise
 - (3) to commit a theft
 - (4) to be one's publicity agent

Direction - Read the passage below and answer the questions that follow (Q. No. 83 to 90) by selecting the most appropriate option :

The children of M. G. Vidyalaya, had a wonderful time yesterday. They were captivated by the speed, agility and showmanship of magician, Kim Rathod. The children watched him spell-bound for two hours. All that broke the silence was a gasp of astonishment or the sound of spontaneous applause, appreciating a trick. Out of his magic wand came flowers, ribbons and garlands of every possible colour and seemingly unending length. It came in such quick succession that everyone was left gasping. One or two young children came up to examine the thin stick wondering how it could hold so much. They were really frustrated. As if that was not magical enough he made a rabbit pop out of an empty wooden box. It went hopping around the stage. It was soon put back into the box and seconds later, he pulled out a rat, soft, white and squeaking. The little ones seemed a little frightened by this, while the others clapped and cheered loudly. This was the grand finale.

The children did not want it to end. They shouted 'encore', 'once more'. But Kim gave them a bright smile and vanished from the scene. The children were left searching here and there for him. Then they walked out excitedly recounting what they had seen and how wonderful it was. One of the boys Ravi declared loudly, it was the best magic show of the century.

83. What does 'encore' mean ?
- (1) Never
 - (2) Now
 - (3) Once more
 - (4) Try
84. What did Kim do in the end ?
- (1) Performed the act once again
 - (2) Sat down
 - (3) Never performed the trick
 - (4) Smiled and disappeared
85. What does 'Century' denote ?
- (1) A period of one year
 - (2) A period of hundred years
 - (3) A period of fifty years
 - (4) A period of ten years
86. What is the magician's name ?
- (1) M. G. Vidyalaya
 - (2) Kiran Rathod
 - (3) Kim Rathod
 - (4) Ravi
87. What is the meaning of 'captivated' ?
- (1) Astonished
 - (2) Angered
 - (3) Arrested
 - (4) Honoured
88. What is the meaning of 'spontaneous' ?
- (1) Happening suddenly
 - (2) Continuous
 - (3) Never
 - (4) Always
89. What is a 'Wand' ?
- (1) Stick
 - (2) Box
 - (3) Hat
 - (4) Cloth
90. What is the meaning of 'hopping' ?
- (1) Running
 - (2) Singing
 - (3) Standing
 - (4) Jumping



भाग - III/PART - III
भाषा - II : संस्कृत / Language - II : SANSKRIT

61. षड् प्रयत्नों की संख्या है
(1) दो (2) आठ
(3) न्याह (4) पाँच
62. 'मनोरथः' उदाहरण है
(1) स्वर सन्धि का (2) प्रकृतिभाव का
(3) विसर्ग सन्धि का (4) व्यञ्जन सन्धि का
63. दान के कर्म के द्वारा कर्ता को सन्तुष्ट करने वाला सम्प्रदान कारक का सूत्र है
(1) चतुर्थी सम्प्रदाने
(2) स्पृहेरीपितः
(3) रुच्यर्षानां प्रीयमाणः
(4) कर्मणा यमभिप्रेति सः सम्प्रदानम्
64. अन्तःस्थ वर्ण है
(1) श् ष् स ह
(2) विसर्ग तथा अनुनासिक
(3) यण (य् व् र् ल्)
(4) अण (अ इ उ)
65. 'मुझे संस्कृत अच्छी लगती है' - इसका संस्कृत में अनुवाद क्या है ?
(1) अहं संस्कृतं भाति ।
(2) मया संस्कृतं रोचते ।
(3) महां संस्कृतं रोचते ।
(4) माम् संस्कृतं रचिकरम् ।
66. 'शिशुः मोदकाय रोदिति' उदाहरण है
(1) स्पृहेरीपितः का
(2) हितयोगे च का
(3) रुच्यर्षानां प्रीयमाणः का
(4) तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्या का
67. 'उच्चैः' उदाहरण है
(1) नियतलिङ्ग का (2) इनमें से कोई नहीं
(3) अलिङ्ग का (4) अनियतलिङ्ग का
68. उभ्यवर्णों का बोधक प्रत्याहार है
(1) यण (2) जस
(3) हम् (4) शन्
69. 'षठानि' रूप है
(1) पद् धातु लट् लकार उत्तमपुरुष एकवचन
(2) पद् धातु लिट् लकार उत्तमपुरुष एकवचन
(3) पद् धातु लोट् लकार उत्तमपुरुष एकवचन
(4) पद् धातु लिट् लकार उत्तमपुरुष एकवचन
70. 'अ' मिलकर बना है
(1) क् और ष् से (2) च् और श् से
(3) च् और छ् से (4) क् और छ् से
71. 'अट्' प्रत्याहार के वर्ण हैं
(1) स्वर तथा ह्य् व् र्
(2) अ उ ट्
(3) ए ओ तथा ह्य् ट्
(4) अ इ उ ट्
72. 'कारकः' में यदि प्रकृति है 'कृ', तो प्रत्यय है
(1) चन् (2) ल्युट्
(3) ष्वल् (4) वृप्
73. अव्ययीभाव समास का उदाहरण है
(1) द्वादश (2) पीताम्बरः
(3) राजपुरुषः (4) अधिहीरः
74. निम्न में कौन 'चतुर्विंशतिसाहस्रीसंहिता' के नाम से ख्यात है ?
(1) रामायण
(2) बृहदारण्यकोपनिषद्
(3) ब्रह्माण्ड पुराण
(4) महाभारत
75. इनमें से कौन संयुक्त व्यञ्जन है ?
(1) ख (2) ष
(3) झ (4) ज्ञ



76. 'वै ऐसा मानता हूँ' का अनुवाद होगा
 (1) अहम् एवं मानामि (2) अहम् एवं मान्ये
 (3) अहम् एवं मानयामि (4) अहम् एवं मन्ये

77. 'वै बाजार जाता हूँ' का संस्कृत में कर्मवाच्य वाक्य होगा
 (1) अहं आपणं गच्छामि
 (2) अस्माभिः आपणं गम्यते
 (3) मह्यं गम्यते आपणम्
 (4) मया आपणं गम्यते

78. 'पच्' धातु का 'क्त' प्रत्यय लगकर रूप बनेगा
 (1) पचितः (2) पाकः
 (3) पक्तः (4) पक्वः

79. पञ्चनवति संख्या है
 (1) 59 (2) 905
 (3) 590 (4) 95

80. अव्यय शब्द-समूह है
 (1) सा, ते, यूयम्
 (2) नमः, सह, ज्येष्ठः
 (3) सर्वत्र, अधुना, उपरि
 (4) अत्र, तत्र, तस्य

81. संस्कृत-साहित्य में किस कवि की रचना को 'विद्वदौषधम्' कहा गया है ?
 (1) भारवि (2) श्रीहर्ष
 (3) कालिदास (4) भास

प्रस्तुत गद्यखण्ड के आधार पर प्रश्न सं. 82 से 84 तक के प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए।

अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नान् उत्तरतु।

एकस्मिन्वसरे कदाचित् लक्ष्मीः पार्वतीम् अवदत् प्रेम्वा- "गौरि! स्वप्तुः नाम उच्यताम्। अन्यथा अहं क्रीडब्जेन भवतीं ताडयेयम्।" इति। तदा पार्वती अवदत्- "मम पत्युः नाम शिवः" इति। शिवपदस्य अन्यार्थः शृगालः इत्यर्थं मत्वा लक्ष्मीः अपृच्छत्। "किं भवत्याः वतिः शृगालः?" इति। "मम पतिः श्याणुरिति निर्दिश्यते" इति उच्यती पार्वती। लक्ष्मीः अवदत्-किं सः स्ताम्भः? इति।

"सः अस्ति पशुपतिः" इति अवदत् पार्वती। "तन्ताम सः पशून् चात्यति इत्यर्थः" इति अवदत् लक्ष्मीः। एतादृशः लक्ष्मी-पार्वत्योः संलापः सर्वेषां मञ्जलाय भवतु।

82. शिवपदस्य अन्यार्थः कः ?
 (1) स्ताम्भः (2) पशुः
 (3) श्याणुः (4) शृगालः

83. गद्यखण्डे कया प्रश्नः पृच्छ्यते ?
 (1) गौर्या (2) दुर्गया
 (3) लक्ष्म्या (4) पार्वत्या

84. कयोः संलापः सर्वेषां मङ्गलाय भवतु ?
 (1) लक्ष्म्याः (2) गौर्याः
 (3) लक्ष्मी-पार्वत्योः (4) पार्वत्याः

85. इनमें से कौन प्रत्याहार नहीं है ?
 (1) अत् (2) ल
 (3) र (4) हल्

86. 'उत्पासी' की संस्कृत संख्या नहीं है
 (1) नवसप्ततिः (2) एकोनसप्ततिः
 (3) एकोनाशीतिः (4) ऊनाशीतिः

87. 'दिन भर में पाठ पढ़ डाला' इस वाक्य का अनुवाद है
 (1) दिनपर्यन्तं पाठः अपठत्।
 (2) दिनाय पाठः पठितः।
 (3) दिनेन पाठः पठितः।
 (4) दिने पाठः पठितः।

88. 'उपकुष्णम्' में कौन समास है ?
 (1) तत्पुरुष (2) इन्द्र
 (3) अव्ययीभाव समास (4) कर्मधारय

89. 32 संख्या के लिए संस्कृत शब्द है
 (1) द्वाधिकत्रिंशत् (2) द्वीत्रिंशत्
 (3) द्वित्रिंशत् (4) द्वित्रिंशत्

90. 'पति' शब्द का सप्तमी, एकवचन रूप होगा
 (1) पते (2) पती
 (3) पत्यौ (4) पत्याम्

91. यदि $\frac{a}{3} = \frac{b}{4} = \frac{c}{7}$ हो, तो $\frac{a+b+c}{c}$ का मान होगा

- (1) $\sqrt{2}$
- (2) $\frac{1}{\sqrt{7}}$
- (3) 2
- (4) 7

92. यदि 5 जनवरी 1991 को शनिवार था, तो 3 मार्च, 1992 को सप्ताह का कौन-सा दिन होगा ?

- (1) शनिवार
- (2) मंगलवार
- (3) रविवार (इतवार)
- (4) सोमवार

93. हल कीजिए $\left[\left\{ \left(\frac{1}{3} \right)^{-3} - \left(\frac{1}{4} \right)^{-2} \right\} \div \left(\frac{1}{4} \right)^{-3} \right]$

- (1) $\frac{11}{64}$
- (2) $\frac{1}{16}$
- (3) $\frac{3}{64}$
- (4) $\frac{5}{24}$

94. एक त्रिभुज की रचना करने के लिए संभव भुजाएं हैं

- (1) 6 सेमी, 3 सेमी, 3 सेमी
- (2) 6.3 सेमी, 5.9 सेमी, 4.6 सेमी
- (3) 6.5 सेमी, 105 मिमी, 39 मिमी
- (4) 3.5 सेमी, 9.2 सेमी, 5.3 सेमी

95. If $\frac{a}{3} = \frac{b}{4} = \frac{c}{7}$, then value of $\frac{a+b+c}{c}$ is

- (1) $\sqrt{2}$
- (2) $\frac{1}{\sqrt{7}}$
- (3) 2
- (4) 7

96. January 5, 1991 was a Saturday, what day of the week was on March 3, 1992 ?

- (1) Saturday
- (2) Tuesday
- (3) Sunday
- (4) Monday

97. Simplify $\left[\left\{ \left(\frac{1}{3} \right)^{-3} - \left(\frac{1}{4} \right)^{-2} \right\} \div \left(\frac{1}{4} \right)^{-3} \right]$

- (1) $\frac{11}{64}$
- (2) $\frac{1}{16}$
- (3) $\frac{3}{64}$
- (4) $\frac{5}{24}$

98. To construct a triangle, the possible sides are

- (1) 6 cm, 3 cm, 3 cm
- (2) 6.3 cm, 5.9 cm, 4.6 cm
- (3) 6.5 cm, 105 mm, 39 mm
- (4) 3.5 cm, 9.2 cm, 5.3 cm

95. $\sqrt{3}, \sqrt[3]{4}, \sqrt[3]{5}$ को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए।

- (1) $\sqrt{3}, \sqrt[3]{4}, \sqrt[3]{5}$
- (2) इनमें से कोई नहीं
- (3) $\sqrt[3]{5}, \sqrt[3]{4}, \sqrt{3}$
- (4) $\sqrt[3]{4}, \sqrt{3}, \sqrt[3]{5}$

96. यदि अवरोही क्रम में रखे गए आँकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन-से मापक प्रभावित होते हैं ?

- (1) माध्य और माध्यक
- (2) बहुलक और माध्यक
- (3) माध्य और बहुलक
- (4) माध्य, माध्यक और बहुलक

97. 5 cm बाजू वाले एक घन के सभी फलकों पर रंग लगाया जाता है। यदि इसे 1 cm³ वाले घनों में काटा जाता है, तो 1 cm³ वाले कितने घनों में केवल एक ही फलक पर रंग होगा ?

- (1) 142
- (2) 54
- (3) 42
- (4) 27

98. पंचभुज के अन्तःकोणों का योग ज्ञात कीजिए।

- (1) 450°
- (2) 540°
- (3) 360°
- (4) 180°

95. Arrange $\sqrt{3}, \sqrt[3]{4}, \sqrt[3]{5}$ in ascending order.

- (1) $\sqrt{3}, \sqrt[3]{4}, \sqrt[3]{5}$
- (2) None of these
- (3) $\sqrt[3]{5}, \sqrt[3]{4}, \sqrt{3}$
- (4) $\sqrt[3]{4}, \sqrt{3}, \sqrt[3]{5}$

96. Which measures of central tendency get affected if the extreme observations on both the ends of a data arranged in descending order are removed ?

- (1) Mean and Median
- (2) Mode and Median
- (3) Mean and Mode
- (4) Mean, Median and Mode

97. A cube of side 5 cm is painted on all its faces. If it is sliced into 1 cm³ cubes, how many cubes of 1 cm³ will have exactly one of their faces painted ?

- (1) 142
- (2) 54
- (3) 42
- (4) 27

98. Find the sum of all the interior angles of a pentagon.

- (1) 450°
- (2) 540°
- (3) 360°
- (4) 180°



99. एक खम्भे का $\frac{4}{7}$ भाग कीचड़ में घंसा है। जब धसे हुए का $\frac{1}{3}$ भाग बाहर खींचा जाता है, तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खम्भा अभी भी कीचड़ में है। खम्भे की पूरी माप क्या होगी ?
- (1) 21 मीटर
(2) 12 मीटर
(3) 30 मीटर
(4) 25 मीटर

100. A और B किसी काम को 12 दिन में करते हैं। B और C उसी काम को 15 दिन में करते हैं। C और A उसी काम को 20 दिन में करते हैं। A अकेले उसी काम को कितने दिन में कर सकता है ?
- (1) 10 दिन
(2) 40 दिन
(3) 30 दिन
(4) 20 दिन

101. $\frac{14}{33}, \frac{42}{55}, \frac{21}{22}$ का महत्तम समापवर्तक है
- (1) $\frac{7}{330}$ (2) $\frac{330}{17}$
(3) $\frac{330}{7}$ (4) $\frac{17}{330}$

102. $(7 + 2\sqrt{10})$ का वर्गमूल है
- (1) $(\sqrt{6} + 1)$
(2) $(2 + \sqrt{5})$
(3) $(\sqrt{2} + \sqrt{5})$
(4) $(\sqrt{3} + 2)$

99. $\frac{4}{7}$ of a pole is in the mud. When $\frac{1}{3}$ of it is pulled out, an 8 meter long piece of the pole still remains in the mud. What is the total length of the pole ?
- (1) 21 metre
(2) 12 metre
(3) 30 metre
(4) 25 metre

100. A and B can do a piece of work in 12 days, B and C in 15 days, C and A in 20 days. How long would A take separately to do the same work ?
- (1) 10 days
(2) 40 days
(3) 30 days
(4) 20 days

101. H.C.F. of $\frac{14}{33}, \frac{42}{55}, \frac{21}{22}$ is
- (1) $\frac{7}{330}$ (2) $\frac{330}{17}$
(3) $\frac{330}{7}$ (4) $\frac{17}{330}$

102. Square root of $(7 + 2\sqrt{10})$ is
- (1) $(\sqrt{6} + 1)$
(2) $(2 + \sqrt{5})$
(3) $(\sqrt{2} + \sqrt{5})$
(4) $(\sqrt{3} + 2)$

103. एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा उभयनिष्ठ है। यदि त्रिभुज की एक भुजा $\frac{4}{3}$ cm लंबी है, तो इस आकृति का परिमाण क्या होगा ?

- (1) $6\frac{2}{3}$ cm
 (2) $5\frac{1}{3}$ cm
 (3) $\frac{16}{9}$ cm
 (4) $\frac{16}{9} \left(\frac{\sqrt{3}}{4} + 1 \right)$ cm

104. निम्नलिखित में से कौन-सी संख्या 99 से विभाजित होती है ?

- (1) 114345
 (2) 3572406
 (3) 913462
 (4) 135792

105. π क्या है ?

- (1) परिमेय संख्या
 (2) पूर्णांक
 (3) अभाज्य संख्या
 (4) अपरिमेय संख्या

106. यदि $10^{2x} = 125$ हो, तो 10^{-2x} का मान होगा

- (1) $\frac{1}{5}$ (2) $\frac{1}{25}$
 (3) $-\frac{1}{25}$ (4) 25

107. 16075 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 167 तथा शेषफल 43 प्राप्त होता है, तो भाजक होगा

- (1) 76 (2) 86
 (3) 96 (4) 56

103. A square and an equilateral triangle have a side in common. If side of triangle is $\frac{4}{3}$ cm long, find the perimeter of the figure obtained.

- (1) $6\frac{2}{3}$ cm
 (2) $5\frac{1}{3}$ cm
 (3) $\frac{16}{9}$ cm
 (4) $\frac{16}{9} \left(\frac{\sqrt{3}}{4} + 1 \right)$ cm

104. Which of the following numbers is divisible by 99 ?

- (1) 114345
 (2) 3572406
 (3) 913462
 (4) 135792

105. What is π ?

- (1) Rational number
 (2) Integer
 (3) Prime number
 (4) Irrational number

106. If $10^{2x} = 125$, then value of 10^{-2x} is

- (1) $\frac{1}{5}$ (2) $\frac{1}{25}$
 (3) $-\frac{1}{25}$ (4) 25

107. 16075 is divided by a number to give quotient 167 and remainder 43, then divisor is

- (1) 76 (2) 86
 (3) 96 (4) 56



108. 50 से छोटे धन पूर्णांकों में अभाज्यों की संख्या है

- (1) 14 (2) 25
(3) 16 (4) 15

109. दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगुना छोटी संख्या के पाँच गुने से 3 ज्यादा है तथा बड़ी संख्या के चार गुने और छोटी संख्या के तीन गुने का योग 71 है। वे संख्याएँ क्या हैं ?

- (1) 43, 8 (2) 17, 1
(3) 14, 5 (4) 11, 9

110. एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसकी एक भुजा 8 cm है, उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी लंबाई 16 cm है। आयत की चौड़ाई ज्ञात करें।

- (1) 4 cm (2) 12 cm
(3) 6 cm (4) 8 cm

111. यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का $\frac{3}{2}$ है, तो लाभ या हानि प्रतिशत है

- (1) $33\frac{1}{3}\%$ लाभ
(2) $33\frac{1}{8}\%$ लाभ
(3) $33\frac{1}{8}\%$ हानि
(4) $33\frac{1}{3}\%$ हानि

112. 121012 को 12 से भाग देने पर, शेषफल है

- (1) 0
(2) 4
(3) 3
(4) 2

108. The number of positive prime integers < 50 is

- (1) 14 (2) 25
(3) 16 (4) 15

109. Twice the larger of two numbers is more than five times the smaller; the sum of four times the larger and three times the smaller is 71. What are the numbers?

- (1) 43, 8 (2) 17, 1
(3) 14, 5 (4) 11, 9

110. A square with a side of 8 cm and a rectangle with length 16 cm have the same area. What is the breadth of the rectangle?

- (1) 4 cm (2) 12 cm
(3) 6 cm (4) 8 cm

111. If cost price of an article is $\frac{3}{2}$ of its selling price, then profit or loss percent is

- (1) $33\frac{1}{3}\%$ profit
(2) $33\frac{1}{8}\%$ profit
(3) $33\frac{1}{8}\%$ loss
(4) $33\frac{1}{3}\%$ loss

112. When 121012 is divided by 12, the remainder is

- (1) 0
(2) 4
(3) 3
(4) 2



113. $(378 \times 236 \times 459 \times 312)$ के गुणनफल में इकाई का अंक होगा

- (1) 6 (2) 4
(3) 2 (4) 8

114. दिए अंकों का माध्य यदि 4.5 है, तो उसका माध्यक क्या होगा ?


5, 7, 7, 8, x, 5, 4, 3, 1, 2

- (1) 5.5 (2) 4.5
(3) 5 (4) 6

115. सांख्यिकी में 'विचरण का विश्लेषण' नामक विधि का मुख्य श्रेय है

- (1) आर. ए. फिशर (2) न्यूटन
(3) लाप्लास (4) गाउस

116. ΔABC के मध्य बिन्दु क्रमशः D, E, F हैं। ज्ञात कीजिए निम्न में से कौन-सा कथन सत्य है ?



- (1) ΔDEF का क्षेत्रफल = ΔABC का क्षेत्रफल
(2) ΔDEF का क्षेत्रफल = $\frac{1}{4}$ ΔABC का क्षेत्रफल
(3) ΔDEF का क्षेत्रफल = $\frac{1}{3}$ ΔABC का क्षेत्रफल
(4) ΔDEF का क्षेत्रफल = $\frac{1}{2}$ ΔABC का क्षेत्रफल

113. Digit of unit place in the product of $(378 \times 236 \times 459 \times 312)$ is

- (1) 6 (2) 4
(3) 2 (4) 8

114. What will be the median of the given data if the mean is 4.5 ?


5, 7, 7, 8, x, 5, 4, 3, 1, 2

- (1) 5.5 (2) 4.5
(3) 5 (4) 6

115. Most important person, related with the method of 'Analysis of Variance' in Statistics

- (1) R. A. Fisher (2) Newton
(3) Laplace (4) Gauss

116. D, E, F are respectively the mid points of ΔABC . Which of the following statement is correct ?



- (1) area (ΔDEF) = area (ΔABC)
(2) area (ΔDEF) = $\frac{1}{4}$ area (ΔABC)
(3) area (ΔDEF) = $\frac{1}{3}$ area (ΔABC)
(4) area (ΔDEF) = $\frac{1}{2}$ area (ΔABC)



117. यदि किसी शिखे गये आँकड़े का समान्तर माध्य = A, ज्यामितीय माध्य = G तथा हारमोनिक माध्य = H हो, तो

- (1) $A \leq G \geq H$
- (2) $A \geq H \geq G$
- (3) $A \geq G \geq H$
- (4) $A \leq G \leq H$

118. यदि दो संख्याओं का अन्तर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हों, तो उनके व्युत्क्रमों का अन्तर है

- (1) $\frac{5}{36}$
- (2) $\frac{9}{5}$
- (3) $\frac{5}{9}$
- (4) $\frac{31}{36}$

119. बीसवीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान् कौन थे ?

- (1) आर्यभट्ट
- (2) हरिश् चन्द्र
- (3) श्रीनिवास रामानुजन
- (4) श्रीधराचार्य

120. किसी कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 660 m^2 है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी है। यदि कमरे की ऊँचाई 11 m है, तो उसकी छत का क्षेत्रफल है

- (1) 200 m^2
- (2) 75 m^2
- (3) 100 m^2
- (4) 150 m^2

117. If Arithmetic mean of a given is A, Geometric mean = G and Harmonic mean = H, then

- (1) $A \leq G \geq H$
- (2) $A \geq H \geq G$
- (3) $A \geq G \geq H$
- (4) $A \leq G \leq H$

118. The difference and the product of two numbers are 5 and 36 respectively. Then the difference of their reciprocals is

- (1) $\frac{5}{36}$
- (2) $\frac{9}{5}$
- (3) $\frac{5}{9}$
- (4) $\frac{31}{36}$

119. Who was the self taught Indian mathematical genius in 20th century ?

- (1) Aryabhatta
- (2) Harish Chandra
- (3) Srinivas Ramanujan
- (4) Shridharacharya

120. The area of four walls of a room is 660 m^2 and the length is twice its width. If height of the room is 11 m, then area of its ceiling is

- (1) 200 m^2
- (2) 75 m^2
- (3) 100 m^2
- (4) 150 m^2

121. सर्वाधिक जैवविविधता पायी जाती है

- (1) फूलों की घाटी में
- (2) दोंग घाटी में
- (3) शान्त घाटी में
- (4) सूमा घाटी में

122. एल पी जी के संदर्भ में क्या असत्य है ?

- (1) एक स्वच्छ ईंधन
- (2) मिथेन उत्सर्जन करने वाला
- (3) नीले ज्वाला से जलने वाला
- (4) उच्च उष्मीय मान

123. पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं

- (1) पौधे तथा जन्तु
- (2) उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक
- (3) उत्पादक व उपभोक्ता
- (4) जैविक तथा अजैविक पदार्थ

124. मकर रेखा है

- (1) $23\frac{1}{2}^{\circ}$
- (2) 23°S
- (3) $23\frac{1}{2}^{\circ}\text{S}$
- (4) $23\frac{1}{2}^{\circ}\text{N}$

125. "इकोसिस्टम" शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया ?

- (1) डॉ. आर. डी. मिश्रा
- (2) डॉ. बिटाकर
- (3) डॉ. ऊडम
- (4) डॉ. ए. जी. टान्स्ले

126. निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल-प्रदूषण सर्वाधिक है ?

- (1) उत्तर प्रदेश में
- (2) पश्चिम बंगाल में
- (3) बिहार में
- (4) मध्य प्रदेश में

121. Most Biodiversity is found in

- (1) Flower's Valley
- (2) Dorang Valley
- (3) Silent Valley
- (4) Surma Valley

122. What is *not* true for LPG ?

- (1) A clean fuel
- (2) Methane emitting.
- (3) Burn with blue flame
- (4) High calorific value

123. The components of the ecosystem are

- (1) Plants and animals
- (2) Producers, consumers and decomposers.
- (3) Producers and consumers
- (4) Biotic and abiotic substance

124. Tropic of Capricorn is

- (1) $23\frac{1}{2}^{\circ}$
- (2) 23°S
- (3) $23\frac{1}{2}^{\circ}\text{S}$
- (4) $23\frac{1}{2}^{\circ}\text{N}$

125. Who coined the term "ecosystem" ?

- (1) Dr. R. D. Mishra
- (2) Dr. Wittaker
- (3) Dr. Odum
- (4) Dr. A. G. Tansley

126. The problem of water pollution with Arsenic is maximum in

- (1) Uttar Pradesh
- (2) West Bengal
- (3) Bihar
- (4) Madhya Pradesh



127. भारत में पश्चिमी पाट के वन्यवन शुष्क हैं, क्योंकि

- (1) निम्न ताप प्रभाव है
- (2) शब प्रभाव है
- (3) रेन शैडो प्रभाव है
- (4) उच्च तुंगता प्रभाव है

128. वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था

- (1) 1960 ई. में
- (2) 1975 ई. में
- (3) 1972 ई. में
- (4) 1962 ई. में

129. वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर्य-विकिरण कहलाती है

- (1) सूर्यातप
- (2) ऊष्मा बजट
- (3) सौर्य स्थिरांक
- (4) सौर्य ऊर्जा

130. किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है ?

- (1) जर्मनी
- (2) यू. एस. एस. आर.
- (3) यू. एस. ए.
- (4) यूनाइटेड किंगडम

131. घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र के खाद्य शृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है

- (1) शाकाहारी
- (2) शाकाहारी व मांसाहारी दोनों
- (3) जीवाणु
- (4) मांसाहारी

127. Deccan of the Western Ghats is drier because of

- (1) low temperature effect
- (2) pressure effect
- (3) rain shadow effect
- (4) high altitude effect

128. The Wildlife Protection Act was passed in

- (1) 1960 A.D.
- (2) 1975 A.D.
- (3) 1972 A.D.
- (4) 1962 A.D.

129. Solar radiation per unit area received at the outer limit of atmosphere known as

- (1) Insolation
- (2) Heat budget
- (3) Solar constant
- (4) Solar energy

130. Fundamental duties are adopted in which country's Constitution ?

- (1) Germany
- (2) USSR
- (3) USA
- (4) United Kingdom

131. In a food chain of grassland ecosystem the top consumers are

- (1) Herbivorous
- (2) Either carnivorous and Herbivorous
- (3) Bacteria
- (4) Carnivorous

132. वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है

- (1) समतापमंडल
- (2) आयनमंडल
- (3) मध्यमंडल
- (4) क्षोभमंडल

133. भारतीय संसद द्वारा जैवविविधता अधिनियम पारित किया गया था

- (1) 11 मई, 1972
- (2) 11 दिसम्बर, 2002
- (3) 16 अक्टूबर, 1990
- (4) 10 दिसम्बर, 1980

134. निम्नलिखित में से कौन-सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है ?

- (1) शिफ्टिंग खेती
- (2) जैविक खेती
- (3) अधिक उपज वाली किस्म की खेती
- (4) ग्लास हाउस में पौधे लगाना

135. अम्लीय वर्षा संबंधित है

- (1) हाइड्रोक्लोरिक एसिड से
- (2) बोरिक अम्ल
- (3) ऐसिटिक एसिड से
- (4) सल्फ्यूरिक एसिड से

136. डब्ल्यू डब्ल्यू एफ से आशय है

- (1) वर्ल्ड वाईड फंड
- (2) वर्ल्ड वॉच फंड
- (3) वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड
- (4) वर्ल्ड वॉर फंड

137. फूलों की घाटी अवस्थित है

- (1) जम्मू-कश्मीर में
- (2) उत्तराखण्ड में
- (3) सिक्किम में
- (4) हिमांचल प्रदेश में

132. The main atmospheric layer near the surface of earth is

- (1) Stratosphere
- (2) Ionosphere
- (3) Mesosphere
- (4) Troposphere

133. The Biodiversity Act was passed by the Indian Parliament

- (1) 11th May, 1972
- (2) 11th December, 2002
- (3) 16th October, 1990
- (4) 10th December, 1980

134. Which one of the following agriculture practices is eco-friendly ?

- (1) Shifting cultivation
- (2) Organic farming
- (3) Cultivation of high yielding varieties
- (4) Growing plants in glass house

135. Acid rain is concerned with presence of

- (1) Hydrochloric acid
- (2) Boric acid
- (3) Acetic acid
- (4) Sulphuric acid

136. WWF stands for

- (1) World Wide Fund
- (2) World Watch Fund
- (3) World Wildlife Fund
- (4) World War Fund

137. The valley of flowers is located in

- (1) Jammu-Kashmir
- (2) Uttarakhand
- (3) Sikkim
- (4) Himanchal Pradesh



138. भारत में निम्नलिखित में से कौन-सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है ?

- (1) ग्रीन ट्रिब्यूनल
- (2) सर्वे ऑफ इण्डिया
- (3) केन्द्रीय जल आयोग
- (4) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

139. 'कोटोपाक्सी' एक जागृत ज्वालामुखी है, जो अवस्थित है

- (1) सिसिली में
- (2) सैंकीज में
- (3) गण्डीज में
- (4) हवाई में

140. तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है

- (1) गंगा
- (2) सिन्धु
- (3) ब्रह्मपुत्रा
- (4) यमुना

141. ध्रुव तारा कहा जाता है

- (1) उत्तरी तारे को
- (2) पश्चिमी तारे को
- (3) पूर्वी तारे को
- (4) दक्षिण तारे को

142. भारत में 'प्रोजेक्ट टाइगर' प्रारम्भ किया गया था

- (1) 1972 ई.
- (2) 1985 ई.
- (3) 1981 ई.
- (4) 1973 ई.

143. कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है ?

- (1) पश्चिम बंगाल
- (2) गुजरात
- (3) तमिलनाडु
- (4) मध्य प्रदेश

144. लखनऊ समझौता (1916) किन दो के मध्य हुआ था ?

- (1) कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य
- (2) नरम दल व गरम दल के मध्य
- (3) ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य
- (4) हिन्दू व मुस्लिम के मध्य

138. Which of the following agencies is primarily concerned with the measurement of pollution in India?

- (1) Green Tribunal
- (2) Survey of India
- (3) Central Water Commission
- (4) Central Pollution Control Board

139. 'Cotopaxi' is an active volcano situated in

- (1) Sicily
- (2) Rockies
- (3) Andes
- (4) Hawaii

140. Tsangpo river of Tibet in India is known as

- (1) Ganga
- (2) Indus
- (3) Brahmaputra
- (4) Yamuna

141. The Pole star is

- (1) North star
- (2) West star
- (3) East star
- (4) South star

142. 'Project Tiger' was started in India

- (1) 1972 A.D.
- (2) 1985 A.D.
- (3) 1981 A.D.
- (4) 1973 A.D.

143. Kanha National Park is located in which Indian State ?

- (1) West Bengal
- (2) Gujarat
- (3) Tamil Nadu
- (4) Madhya Pradesh

144. The Lucknow Pact of 1916 was between

- (1) The Congress and the Muslim League
- (2) The Moderates and Extremists
- (3) The British and the Indian
- (4) The Hindu and the Muslims



145. जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है ?
(1) राजस्थान में
(2) बिहार में
(3) मध्य प्रदेश में
(4) गुजरात में
146. कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है
(1) चट्टानों की शक्ति मापन
(2) इनमें से सभी
(3) खेत पट्ट पर लिखने के लिये कार्बन का प्रयोग
(4) प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन
147. संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया ?
(1) 20 जनवरी 1950
(2) 13 नवम्बर 1949
(3) 21 मई 1949
(4) 24 जनवरी 1950
148. बायोमैग्निफिकेशन है
(1) समय के साथ उत्तक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता
(2) इनमें से सभी
(3) कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि
(4) जीव के आकार में वृद्धि
149. निम्नलिखित में से कौन जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है ?
(1) प्रोटीन (2) फॉस्फोरस
(3) कवक (4) मृदा
150. ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है
(1) न्यूयार्क में (2) नागासाकी में
(3) ऐम्स्टर्डैम में (4) सिडनी में

145. Where is the Wild Ass Sanctuary ?
(1) In Rajasthan
(2) In Bihar
(3) In Madhya Pradesh
(4) In Gujarat
146. Carbon dating refers to
(1) Measurement of strength of rocks
(2) All of these
(3) Use of carbon for writing on white board
(4) Measurement of age of bones or materials in ancient sites
147. The Constituent Assembly adopted National Anthem on
(1) 20 January 1950
(2) 13 November 1949
(3) 21 May 1949
(4) 24 January 1950
148. Biomagnification is
(1) increasing concentration of a toxic substance in the tissues over time
(2) all of these
(3) to increase the size of picture using computer
(4) increasing size of organism
149. Which of the following is **not** a abiotic component of biosphere ?
(1) Protein (2) Phosphorus
(3) Fungi (4) Soil
150. The headquarter of Green Peace International is located in
(1) New York (2) Nagasaki
(3) Amsterdam (4) Sydney